

Keywords: व्याकुल, बेचैन, बेचैनी, चिंता, फ़िक्र, परेशानी, कष्ट, दुःख

उपयोगी adj. useful	जब सोनू समय पर घर नहीं पहुँचा तो उसकी माँ को बेचैनी होने लगी। When Sonu did not return home on time, his mother started getting restless.
व्यक्त करना to express	
भाव m. idea, notion, feeling	जब सोनू समय पर घर नहीं पहुँचा तो उसकी माँ बेचैन हो उठी। When Sonu did not return home on time, his mother grew restless.
व्याकुल adj. anxious	
बेचैनी f. restlessness, uneasiness	
चिंता f. concern, worry	तबीयत f. state of health
बेचैन adj. restless, uneasy	मुझे बेचैनी हो रही है। I am feeling uneasy (because of bad health).
जब सोनू घर (पर) समय पर नहीं पहुँचा तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। When Sonu did not return home on time, his mother grew anxious.	चिंतित adj. concerned, worried
	चिंतित होना to be worried
जब मैंने सुना कि जिस ट्रेन से मेरे माता-पिता दिल्ली जा रहे थे वह दुर्घटना-ग्रस्त हो गई तो मैं बहुत व्याकुल हो उठी। When I heard that the train that in which my mother-father were traveling to Delhi was involved in an accident, I grew very anxious.	मुझे अपना कार्य कल तक खत्म करना है और अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया उस पर काम करना। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मैं उसे समय पर खत्म नहीं कर पाऊँगी। I have to finish my work by tomorrow and I haven't even started working on it. I am very worried that I will not be able to finish it on time.
दुर्घटना-ग्रस्त adj. involved in an accident	
अशुभ adj. inauspicious	जब सोनू समय पर घर नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। When Sonu did not return home on time, his mother started getting worried.
चैन m. ease of mind	तुम बड़ी चिंतित लग रही हो कुछ परेशानी है तुम्हें? You look very worried. Do you have some problem?

मैं बहुत चिंतित हूँ - मैं अपना कार्य समय पर खत्म नहीं कर पाई और मेरे प्रोफेसर ने मुझे केवल दो दिन की और मोहलत दी है और मैं शायद फिर भी खत्म नहीं कर पाऊँगी उस कार्य को।

I am very worried – I was not able to finish my work on time and my professor has given me a grace period of two more days and even then I might not be able to finish that work.

फिक्र f. concern, anxiety, worry

फिक्र एक ऐसा शब्द है जो anxiety और worry को एक तरीके से मिला-जुला के बना है।

फिक्र is a word which, in a way, has been made by combining “anxiety” and “worry.”

जब सोनू समय पर घर नहीं आया तो उसकी माँ को फिक्र होने लगी।

When Sonu did not return home on time, his mother started getting concerned.

फिक्र होना

to be concerned

मुझे फिक्र हो रही है।

I am concerned.

फिक्र करना

to concern about somebody or something

तुम फिक्र मत करो।

Do not worry.

फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।

There is no need to worry.

परेशानी f. trouble

तुम्हें क्या परेशानी है?

What is troubling you?

सताना v.t. to trouble or distress

तुम्हें क्या बात सता रही है

What is troubling you?

कष्ट m. affliction, difficulty, trouble

तुम्हें क्या कष्ट है?

What is ailing (troubling) you?

दुःख m. pain, troubles

तुम्हें क्या दुःख है?

What's troubling (upsetting) you?

उदास adj. sad

इन सारे शब्दों के बारे में जो चिंता थी मेरे मन में, आपने उसको दूर कर दिया।

You have removed all the concern in my mind about these words.

दूर करना to remove